

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन ने तीसरी ब्रैम्पटन ट्रांज़िट फैसिलिटी के लिए 128 मिलियन डॉलर का फेडरल और प्रोविंसियल निवेश सुरक्षित किया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (15 अप्रैल, 2021) – आज, मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown); ब्रैम्पटन सिटी काउंसलर्स; फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज, माननीय कैथरीन मकेना (Catherine McKenna) की ओर से, मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिवेलपमेंट के लिए पार्लियामेंटी सेक्रेटरी और ब्रैम्पटन ईस्ट के लिए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, मनिंदर सिद्धु (Maninder Sidhu); ओनटैरियो के मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, माननीय लॉरी स्कॉट (Laurie Scott) की ओर से, ब्रैम्पटन वेस्ट के लिए मेम्बर ऑफ प्रोविंसियल पार्लियामेंट, अमरजोत संधु (Amarjot Sandhu) ने, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) की तीसरी स्टोरेज और देखरेख वाली फैसिलिटी के लिए फंडिंग की घोषणा की।

कैनेडा सरकार, प्लान में निवेश करने के लिए, पब्लिक ट्रांज़िट इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रीम (पी.टी.आई.एस.) (Public Transit Infrastructure Stream) (PTIS) के द्वारा, इस प्रोजेक्ट में 69.9 मिलियन डॉलर का निवेश कर रही है। ओनटैरियो सरकार, 58.2 मिलियन डॉलर प्रदान कर रही है, जबकि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, इस प्रोजेक्ट के लिए 46.6 मिलियन डॉलर का योगदान दे रही है।

प्रोजेक्ट के फेज 1 में, लगभग 400,000 वर्ग फुट की ट्रांज़िट देखरेख वाली और स्टोरेज फैसिलिटी का निर्माण शामिल है, जिसमें 36 देखरेख कक्ष और लगभग 49 ओवरहेड गैराज दरवाजे होंगे, जहां प्रशासकीय और देखरेख सहयोग वाले स्थान के अलावा, 250 स्टैंडर्ड 40 फुट के बराबर बसों के लिए जगह का प्रबंध हो सके। इस कार्य में फिक्स और मोबाइल लिफ्ट्स, वाहन जांच पिट, ओवरहेड क्रेन, फ्यूल स्टोरेज और वितरण सिस्टम, वाहन संबंधी जगह और रेडियो सिस्टम तथा बैकअप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंस्टॉल करना भी शामिल है।

इस नई फैसिलिटी का निर्माण, ब्रैम्पटन के लिए पब्लिक ट्रांज़िट इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता, गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करेगा। साथ ही इसके द्वारा, निवासियों के लिए अधिक साफ और अधिक प्रभावी ट्रांस्पॉर्टेशन विधियां तैयार करते हुए, इलेक्ट्रिक बसों की सेवा देने के लिए भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन भी किया जा सकेगा। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, फैसिलिटी को इलेक्ट्रिक बनाने के लिए 150 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग की मांग जारी रखेगी।

यह फंडिंग, फैसिलिटी के फेज 1 के निर्माण की लागतें वहन करने में मदद करेगी। इस नई फैसिलिटी के लिए, 2022 में शुरू करते हुए दो फेज में निर्माण करने का लक्ष्य है और फेज 1 के 2024 के अंत तक खुलने की संभावना है।

सिटी इस समय इस प्रोजेक्ट के लिए, एन्वायरनमेंटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (ई.पी.आर.) (Environmental Project Report) (EPR) की समीक्षा अवधि में है। रिपोर्ट, [Brampton.ca/transitfacility](https://brampton.ca/transitfacility) पर 19 अप्रैल तक समीक्षा के लिए खुली है। जो लोग फीडबैक देना चाहते हैं, वे सूचीबद्ध प्रोजेक्ट संपर्कों (Project Contacts) को संपर्क कर सकते हैं।

लिंक

- [कैनेडा और ओन्टैरियो, ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए पब्लिक ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहे हैं \(Canada and Ontario invest in public transit infrastructure for residents of Brampton\)](#)
- [तीसरी ट्रांजिट फैसिलिटी की एन्वायरनमेंटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट \(ई.पी.आर.\) की समीक्षा अवधि \(Third Transit Facility Environmental Project Report \(EPR\) Review Period\)](#)
- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने जीरो-निकासी वाली बसों की हिमायत करते हुए, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस ट्रांजिट फैसिलिटीज में से एक के निर्माण की योजना बनाई है \(City of Brampton plans to construct one of North America's largest electric bus transit facilities supporting zero-emission buses\)](#)

हवाले

“हम, ब्रैम्पटन की तीसरी स्टोरेज और देखरेख वाली फैसिलिटी में, कैनेडा सरकार और ओन्टैरियो सरकार के निवेशों का स्वागत करते हैं। ब्रैम्पटन ट्रांजिट कैनेडा में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले ट्रांजिट सिस्टम्स में से एक है। नई फैसिलिटी, हमारे सुलभ और जुड़े हुए ट्रांजिट नेटवर्क में सहयोग करने में मदद करेगी। इसके निर्माण में हर वर्ष, ब्रैम्पटन में लगभग 850 नई नौकरियां पैदा होंगी और जब फैसिलिटी पूरी तरह से तैयार होकर चालू होगी, तो लगभग 1,000 नौकरियां पैदा होंगी। ग्रीन सिटी बनने की हमारी काउंसिल की प्रतिबद्धता के आधार पर, हम फैसिलिटी को इलेक्ट्रिक बनाने के लिए फंडिंग की मांग जारी रखेंगे।”

- *पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैम्पटन, स्थिरता में लीडर है और यह सही है कि हमारा ट्रांजिट नेटवर्क, पूरी तरह से जुड़ा हुआ और ईको-फ्रेंडली है। ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल, ब्रैम्पटन ट्रांजिट की तीसरी स्टोरेज और देखरेख वाली फैसिलिटी के लिए सरकार के सभी विभागों से मदद प्राप्त करने के लिए उत्साहित है, जब हम इसे इलेक्ट्रिक, जीरो-निकासी वाले बस फ्लीट में बदलने और स्थिरता संबंधी हमारे लक्ष्यों को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, स्थिर और ऊर्जा-प्रभावी ट्रांजिट सिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह निवेश हमारी ग्रीन पहलकदमियों में बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट – तीसरी ट्रांजिट फैसिलिटी में मदद करेंगे। हम ब्रैम्पटन में निवेश लाने के लिए, हमारे स्टेकहोल्डर्स के साथ काम जारी रखने के लिए उत्साहित हैं।”

- *डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“आज का निवेश, ब्रैम्पटन की सबसे बड़ी ट्रांजिट देखरेख वाली स्टोरेज फैसिलिटी बनाने में मदद करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाले वर्षों में निवासियों की गुणवत्ता वाले और सुरक्षित ट्रांजिट विकल्पों तक पहुंच है। साथ ही, यह ग्रीन और कम-कार्बन वाले ट्रांजिट सिस्टम्स के लिए भावी अवसर पैदा करते हुए, अच्छे वेतन वाली नौकरियां भी पैदा करेगा। कैनेडा का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, हज़ारों प्रोजेक्ट्स में निवेश करता है, पूरे देश में नौकरियां पैदा करता है और अधिक साफ तथा अधिक भागीदारी वाली कम्युनिटीज बनाता है।”

- *मनिंदर सिद्धु (Maninder Sidhu), मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिवेलपमेंट के लिए पार्लियामेंटी सेक्रेटरी और ब्रैम्पटन ईस्ट के लिए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज, माननीय कैथरीन मकैना (Catherine McKenna) की ओर से,*

“ओनटैरियो सरकार एक बार फिर, यह महत्वपूर्ण निवेश करने में हमारे फेडरल और म्युनिसिपल सहयोगियों के साथ साझेदारी करके, प्रांत में ट्रांज़िट इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है। नया ट्रांज़िट टर्मिनल, हमारे प्लान में दूसरा कदम है, ताकि ब्रैम्पटन के निवासी इधर-उधर आने-जाने में कम समय लगाएं और अपने परिवारों के साथ घर में अधिक समय बिता सकें।”

- *अमरजोत संधु (Amarjot Sandhu), ब्रैम्पटन वेस्ट के लिए मेम्बर ऑफ प्रोविंसियल पार्लियामेंट, ओनटैरियो के मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, माननीय लॉरी स्कॉट (Laurie Scott) की ओर से*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

शैंटेल ऑबर्टिन (Chantalle Aubertin)

प्रेस सेक्रेटरी

ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज

613.941.0660 | chantalle.aubertin@canada.ca

क्रिस्टीन बुजोल्ड (Christine Bujold)

प्रेस सेक्रेटरी

ऑफिस ऑफ माननीय लॉरी स्कॉट, ओनटैरियो के मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर

416.454.1782 | christine.bujold@ontario.ca

सोफिया सूजा-डियास (Sofia Sousa-Dias)

कम्युनिकेशन्स ब्रांच

ओनटैरियो मिनिसट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर
437.991.3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca

मीडिया रिलेशन्स

इंफ्रास्ट्रक्चर कॅनेडा

613-960-9251

टोल फ्री: 1.877.250.7154

ईमेल: infc.media.infc@canada.ca

हमें [Twitter](#), [Facebook](#) और [Instagram](#) पर फॉलो करें

वेबसाइट: [Infrastructure Canada](#)